

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 570] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 1983/अग्रहायण 30, 1905
No. 570] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 21, 1983/AGRAHAYANA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक संग्रालय

विकास प्रामुक्त (धौषधि) का कार्यालय

घावेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1983

का० प्रा० 920 (घ).—केंद्रीय सरकार, धौषधि (कीमत नियंत्रण) घावेश, 1979 के पैरा 13 के उप पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रतिबिम्बित में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग की, जिसकी प्रचलता और पैक प्रकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित है, अग्रणी कीमत के रूप में, जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं है, नियत करती है :—

सारणी				
क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (र०)
1	2	3	4	5
बर्ग 3 सूत्रयोग				
1.	ओरसीप्रीनालिन सल इनजेक्शन	0-5 मिग्राम/मि०लि	10 × 1 एमलि एम्प	9-48
2.	एक्सीपेमिड टेब्लेट्स	20 मिग्राम/टेब	10 × 10 की इस्ट्राप	40-34

[सं० 9(50) 83-घोषधि-2]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 19th December, 1983.

S.O. 920(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below as the leader price, exclusive of the excise duty and local taxes, if any, of each of the formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack sizes specified respectively in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader Price Rs.
1	2	3	4	5
CATEGORY III FORMULATIONS:				
1.	Orciprinaline Sul. Injection.	0.5mg/ml	10x1ml Amp.	9.48
2.	Xipamid Tablets	20mg/Tab.	10x10's Strip	40.34

[No. 9(50)/83-Drug. II]

[E.N. MURTHY, Dy. Secy.]